FINANCIAL EXPRESS

Vibrant Gujarat: 16 more MoUs signed

FE BUREAU Ahmedabad, December 27

THE GUJARAT GOVERN-**MENT** on Monday inked 16 more memoranda of understanding (MoUs) as part of the upcoming 10th edition of Vibrant Gujarat Global Investments Summit (VGGIS).

The MoUs were done in the areas of waste-to-energy, hospitality and defence accessories. Since last five Mondays, the state government is signing MoUs with investors and total as many as 96 MoUs have been signed worth over ₹55,000 crore.

Though details of the MoUs haven't been disclose related to 16 fresh MoUs inked in presence of senior minister Rajendra Trivedi and Minister of State for industries Jagdish Panchal, but the state government in its official press communique claimed that Taj Group of Hotels has zeroed in to develop a five-star category hotel near

Statue of Unity in Kevadia.

"The upcoming five-star hotel project would generate huge employment opportunity for people staying in and around Kevadia area, especially members of tribal community. Such project would bring a large number of high-end tourists with immense purchasing power and hence it would boost cottage and handicraft sector in which generally tribal people are actively involved," said the state government.

Sources in the state industries department said that among the other important MoUs were a waste-to-energy plant as well as waste-to-oil plant in Gujarat to encourage clean environment movement. Such projects would help to reduce air-pollution in highly urban areas, said the sources without divulging details about the locations of these plants.

The state government claimed that an MoU was signed for 70 MW hybrid

renewable energy park. Besides, investments commitments for insecticides formulations plant and specially

chemicals plants were also done during the fifth tranche of MoUs ahead of the VGGIS 2022.

TIMESCAN



be downloaded from website of Govt, e-portal etender.up.nic.in.

e-TENDER NOTICE FOR RELEASING THROUGH NEWS PAPER

U.P State Road Transport Corporation (U.P.S.R.T.C) is inviting e-tenders from INDIAN BANK ASSOCIATION's (IBA) empanelled security printing presses, having multi-color offset printing machine and online numbering with computerized checking facility for printing and supply of Electronic Ticketing Machines (ETMs)

Name of Items	Availability & E-Submission of E-Tender on E-Portal	Opening of e-Tender document
THE PRINTING AND SUPPLY OF THERMAL PAPER ROLLS FOR USE IN ELECTRONIC TICKETING MACHINES OF UPSRTC	w.e.f. 28.12.2021 to 18.01.2022 up to 15:00 hrs.	18.01.2022 at 16:00 Hrs.

Prescribed tender forms containing all relevant details, terms and conditions can

Detailed bill of quantity, eligibility for participating in tender, other terms and conditions of the tender and calendar/timing of the tender may be seen on Govt. eportal etender.up.nic.in. Please do visit etender.up.nic.in from time to time before last date of submission of tender for any possible amendment

For any query/clarification regarding submission of e-tender vendors may call on following helpline numbers of NIC:-

1-0522-2286808 2-0522-2286809 3-0522-4130303 4-0522-2298813 5-09415049649 FINANCE CONTROLLER UPSRTC

DUROPLY INDUSTRIES LIMITED Registered Office: 9, Parsee Church Street, Kolkata-700001 CIN:L20211WB1957PLC023493 NOTICE is hereby given that the following share certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost / misplaced and the registered shareholders hereof have applied for the issue of duplicate share certificate Name of Folio Share Distinctive No. of Shareholder Certificate No. Shares

Mrs. Madhu Sehgal S00857 1032801 - 1032900 100 The public is hereby warned against purchasing or dealing with these shares in anyway. Any person who has / have any claim in regard to these shares should lodge such claim with the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd., 23, R.N.Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata-700001, supported by documentary evidence, within 15 (Fifteen days from the date of publication of this notice, failing which, the Company wil proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of the aforesaid.

For DUROPLY INDUSTRIES LIMITED Sd/- RAVI KUMAR MURARKA Place - Kolkata Date - December 28, 2021 CFO & Company Secretary



GUJARAT STATE ELECTRICITY CORPORATION LTD. VIDYUT BHAVAN, RACE COURSE, VADODARA, INDIA - 390007 Phone Nos: 91-265-6612341, Fax: 91-0265-2355195 e-mail: cefuel.gsecl@gebmail.com | Website : www.gsecl.in CIN: U40100GJ1993SGC019988

Tender Notice No. GSECL/Fuel/Imp Coal/5500 GAR/2021/Dec-21: Supply of 1.50 LMT (+/- 20%) Non-Coking Steam (Thermal) Imported Coal for a period of 3 (three) month to GSECL (Purchaser) on FOR Basis for delivery at the Sikka Thermal Power Station of GCV (AR) of 5500 Kcal/Kg for its use at Sikka Thermal Power Stations of GSECL

GSECL invites the above tenders from eligible bidders through e-tendering process. The Tender Specification and Bidding Documents may be downloaded from the websites https://gsecl.nprocure.com or https://www.nprocure.com (For VIEW, DOWNLOAD & ON-LINE SUBMISSION) and www.gsecl.in (For VIEW & DOWNLOAD). Interested and eligible bidders may submit their "On-line Tender" and "Physical Tender" as prescribed in the Tender Document before the due date and time of submission. Please be in touch with the Websites for corrigendum, etc. if any, till the last date of submission of bids

> Chief Engineer (Fuel) GSECL, Corporate Office, Vadodara, Gujarat (India)

यूको बैंक 😭 UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

Head Office, Printing & Stationery Deptt. 2, India Exchange Place, Kolkata-700 001

Rates are invited through e-tendering process for purchase of 95 GSM 110MT Security paper from IBA approved Paper Mills or through their authorised supplier/dealer Manufacturing CTS MICR Security Paper with Bank's Water Mark and incorporation of mandatory security features, stipulated by RBI (Terms and conditions apply as per NIT) Last date for submission of application is 06.01.2022 before 04.00 pm. For details visit our Bank's Website: www.ucobank.com and Bank's authorized e-Tendering Service Provider M/s Antares Systems Ltd. through Website https://www.tenderwizard.com/UCOBANK. **Honours your Trust**



Tenders have been published for the following Services / Material Procurement through e- procurement platform. For details, please visit https://tender.telangana.gov.in or https://www.scclmines.com NIT/Enquiry No - Description / Subject - Last date and time for Submission of bid(s) E022100322- Repairs to Shells and Fabrication Repairs/Replacements on 28KL Capacity BEML Water Sprinklers under RC for a period of 2 years - 31-12-2021-17:00 Hrs.

E092100332 - Outsourcing of House wiring in corporate Area on Rate Contract basis for a period of Three

E052100325- Supply, Installation and Commissioning of Gravity feed N-type Gaseous Chlorinators with chloring supply up to 4 kg/hr with necessary fittings and accessories in various areas of SCCL - 06-01-2022-17:00 Hrs. E092100329- Hiring of Air Coolers on Rate contract basis for a period of 3 Years - 06-01-2022-17:00 Hrs. E152100348- Supply of 190 HP VT Bare Pumps for Civil Department. RG-I Area - 07-01-2022-17:00 Hrs. E102100330- Procurement of SECURE Make ABT Energy Meters data downloading Software for installation Laptops for capturing and analyzing the MRI Data at various Solar Plants - 07-01-2022-17:00 Hrs.

E092100339- Procurement of Uniforms for Active Rescue Trained Persons - 10-01-2022-17:00 Hrs E012100293- Appointment of Consultancy Agency for designing Battery Energy Storage System (BESS) for In-House Captive Solar Power Plants of SCCL - 10-01-2022-17:00 Hrs. General Manager (Material Procurement)

NIT/Enquiry No - Description / Subject / Estimated Contract Value - Last date and time for Submission of bid(s) CRP/CVL/MNG/TN-82/2021-22, Dt.20-12-2021- Construction of 100 T Dumper maintenance shed with 5 bays at PK OC-II extension project in Manuguru Area, Bhadradri Kothagudem Dist., Telangana State - Rs. 1,91,86,659/- 04-01-2022- 04:30 P.M.

PR/2021-22/MP/CVL/62

GM (Civil)

DIPR No: 2495-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2021-22, Dt: 27-12-2021

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

Siemens Gamesa to supply turbines for 302-MW wind project in India

FE BUREAU New Delhi, December 27

SIEMENS GAMESA SAID on Monday that it has won an order to supply 302 mega-watt (MW) of wind power turbines from Ayana Renewable. The financial details of the deal was not disclosed. Ayana had won the project, expected to be commissioned in 2023, in the tenth auction tranche conducted by the Solar Energy Corporation of India (SECI) in March when the lowest tariff of Rs 2.78 per unit was discovered. Ayana Renewable Power is backed investors such as UK's CDC and the National Investment and Infrastructure

Turbines for this project will be supplied from Siemens Gamesa's manufacturing plants in India. The company, operating in the country since 2009, has one blade factory in Nellore, Andhra Pradesh, another manufacturing plant Chennai, Tamil Nadu. It also runs an operations and maintenance centre in Chennai.

SECI has so far held eleven reverse auctions for wind power since February 2017. The highest tariff of ₹3.46/unit was discovered in the maiden auction, and the lowest rate of ₹2.44/unit was discovered in the third tranche in February, 2018.

The country has set a target to raise the capacity of installed renewable energy generation plants from the current level of 100 GW to 450 GW by the end of 2030.

Currently, solar power has become the key driver of capacity addition in the renewable energy sector, increasing its share in the overall green mix to around 47%, surpassing wind power capacity in FY21. Analysts have pointed that the wind market may not be key driver in medium term due to the widening gap between solar and wind tariffs. Solar rates plummeted to record low of ₹1.99/unit in December, 2020.

PM Modi lays foundation of projects worth over ₹28,000 cr in Mandi

Prime Minister Narendra Modi on Monday attended the ground breaking ceremony for 287 investment projects worth over ₹28,197 crores in Himachal Pradesh's Mandi to mark the fourth anniversary of the Jai Ram Thakur-led BJP government in the state. The prime minister is also expected to address a rally at the Paddal ground in Mandi, the home district of Chief Minister Thakur.

Earlier, Modi, accompanied by Union minister Anurag Thakur, visited an exhibition put up by various departments of the state government.

AGlobal Investors' Meet was held in Dharamsala on November 7-8, 2019. The first ground breaking ceremony of projects worth over ₹13,656 crores to turn these proposals into reality was held in Shimla on December 27 the same year in the presence on Union Home Minister Amit Shah. —PTI

E-AUCTION SALE NOTICE (under regulation 32 & 33 of IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016) UNITY INFRAPROJECTS LIMITED (In Liquidation) ('UIL') (CIN: L99999MH1997PLC107153) (Sale under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

Liquidator of UIL hereby invites Eligible Bidder (s) for participation of E-Auction Sale of Assets of UIL, listed herein, on "As is Where is, Wherever There is & Without Recourse" basis as per schedule listed herein and as per the conditions and process listed in the process document

(Amt is INR)	Earnest Money Deposit (Amt in INR)	
(A 56	Rs. 3,56,739.00	
	(Amt is INR)	

bidder can bid for combination of any Lots or combination of any vehicles within the Lots by depositing the Earnest Money Deposit mentioned against those specific vehicles The above sale is subject to the terms and conditions mentioned in the process document uploaded

Please refer the same for details Last date for submission of bids: 10th January 2022

E-auction date: 13th January 2022

E-auction Time: Lot-A: 10:00 AM to 10:45 AM, Lot-B: 10:45 AM to 11:30 AM, Lot-C: 11:30 AM to 12:15 PM, Lot-D: 12:15 PM to 12:45 PM, Lot-E: 12:45 PM to 13:15 PM Contact: +91-98339 68901

Correspondence email: liqunity@dsaca.co.in, aks@dsaca.co.in Alok Kailash Saksena Liquidator- Unity Infraprojects Limited

Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP- P00056/2017-18/10134 Off Add: Desai Saksena & Associates, First Floor, Laxmi Building, Date: 27/12/2021 Sir Phirozshah Mehta Rd, Mumbai, Maharashtra 400001

KDDL LIMITED (CIN: L33302HP1981PLC008123) Regd. Office: Plot No. 3, Sector - III, Parwanoo, Distt. Solan (H.P.) - 173220 Tel.: +91 172 2548223 / 24 Fax : +91 172 2548302 Website: www.kddl.com Email id: investor.complaints@kddl.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of KDDL Limited ("the Company") will be

held on Tuesday, 18th January, 2022 at 09:30 a.m (IST) through Video Conference ("VC") /Other Audio Video Means ("OAVM") to transact the special business as set out in the Notice of EGM in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 (the act), rules framed thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with Circular No. 8/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020. Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular no. SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020/79 dated May 12, 2020 and circular no. SEBI/ HO/ CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue.

The proceedings of EGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of Company at Plot No 3, Sector-III, Parwanoo, District Solan, (H. P) -173220 which shall be deemed to be the venue of the EGM. The Company has sent notice of EGM on Monday, 27" December, 2021 through email, to those members whose email IDs have been registered with the Company/Depositories as on the cut-off date i.e Friday, 24" December, 2021. Notice is also available on Company's website www.kddl.com and also on Stock Exchanges, where equity shares of the Company are listed i.e., BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

In terms of Section 108 of the act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ("the rules") and regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing evoting facility to its members through NSDL to exercise their right to vote electronically on the business as set out in the notice of EGM. In this regard, the members are hereby informed that:

(a) Special Business as set out in the notice of EGM will be transacted through voting by electronic means.

(b) The remote e-voting period will commence on Friday, 14th January, 2022 at 10:00 a.m and will end on Monday, 17" January, 2022 at 05:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed after 05:00 p.m. on Monday, 17th January, 2022 and the same shall be disabled by NSDL for voting thereafter. (c) The voting rights of Members shall be in proportion to the equity

shares held by them as on the cut-off date for e-voting i.e Tuesday, 11" January, 2022. The members can cast their votes on the businesses set out in the EGM Notice, either through remote e-voting facility made available on the above dates or through e-voting facility- made available at EGM. (d) Any person who becomes member of the Company after sending

notice of EGM by email and holding shares as on cut-off date i.e Tuesday, 11" January, 2022 may obtain login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote.

(e) Members who have cast their vote through remote e-voting prior to EGM may also attend the EGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. (f) Members who have not cast their vote through remote e-voting

and are present in the EGM through VC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the EGM. (g) Members who have not registered their e-mail addresses are requested to furnish the same to the RTA of the Company at

info@masserv.com along with folio no. or DP-ID/ Client ID, copy of PAN card and AADHAR card duly self-attested. Also, the manner in which the members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can cast vote through remote e-voting or through e-voting system during the meeting is given in the notice of EGM. (h) In case of any query or grievance pertaining to remote e-voting

before the EGM, e-voting during the EGM and joining the EGM through VC/OAVM, Members may contact Mr. Amit Vishal, Asst. Vice President, NSDL, Trade World, Awing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400013, Email:at evoting@nsdl.co.in, Tel.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. Further, Members may also contact with Mr. Deepanshu Rastogi, Asst. Manager, MAS Services Limited, RTA at info@masserv.com or on Telephone No.: 011-26387281/82/83.

Date: 27" December, 2021 Place: Chandigarh

For KDDL Limited Brahm Prakash Kumar Company Secretary

TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Timescan Logistics Private Limited" on October 19, 2006 vide certificate of incorporation bearing Corporate Identity No. U60232TN2006PTC061351 under the provisions of Companies Act, 1956 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai. Subsequently, name of the company changed to "Timescan Logistics (India) Private Limited" vide fresh certificate of incorporation dated May 28, 2012. Subsequently, the company was converted into Public Limited Company vide a fresh certificate of incorporation issued by ROC-Chennai, consequent upon conversion from Private Limited to Public Company dated July 02, 2021 in the name of "Timescan Logistics (India) Limited". The Corporate Identification Number of our Company changed to U60232TN2006PLC061351. For further details, please refer to section titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 93 of the Prospectus

Registered office: Rajah Annamalai Buildings, Annex 3rd Floor, 18/3, Rukmani Lakshmipathy Road, (Marshalls Road), Egmore, Chennai - 600 008. India Contact Person: Ms. S Anupriyankha, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No.: 044 – 4356 6000 E-Mail ID: cs@timescan.in; Website: www.timescan.in; CIN: U60232TN2006PLC061351

OUR PROMOTERS: (I) Mr. MOULANA TAUFEEK ISLAM, AND (II) Mrs. AYISHA BEEVI INITIAL PUBLIC OFEFR OF 9,44,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED (THE

"COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹51/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹41/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹481.44 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹51/- PER EQUITY SHARE. AGGREGATING TO ₹24.48 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 8,96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹51/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹456.96 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.02% AND 25.64% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY. All the investors applying in a public issue shall use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making payment providing details about the bank account

which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") as per the SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated November 10, 2015. As an alternate payment mechanism, Unified Payments Interface (UPI) has been introduced (vide SEBI Circular Ref: SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 as a payment mechanism in a phased manner with ASBA for applications in public issues by retail individual investors. For further details, please refer to section titled "Issue Procedure" beginning on page 166 of the Prospectus. In case of delay, if any in refund, our Company shall pay interest on the application money at the rate of 15 % per annum for the period of delay.

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. (For further details please see "The Issue" beginning on page no. 30 of the Prospectus.) A copy will be delivered for filing to the Registrar of Companies as required under sub-section 4 of Section 26 of the Companies Act, 2013. For further details please refer the section titled 'Issue Procedure' beginning on page 166 of the Prospectus

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 51/- PER EQUITY SHARE

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/-EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 2,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO "SECTION XI - ISSUE INFORMATION" BEGINNING ON PAGE 159 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON: December 31, 2021 **ISSUE CLOSES ON: January 04, 2022**

Simple, Safe, Smart way of Application!!!

Mandatory in public issue. No cheque will be accepted now available in ASBA for retail individual investors.

*ASBA is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account.

"ASBA has to be availed by all the Investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and General

Information Documents and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 166 CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF THE COMPANY AS REGARDS TO ITS OBJECTS: For information on the main objects of the Company, please see "Our History And Certain Other Corporate Matters" on page 93 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in

relation to the Offer. For further details, please see "Material Contracts and Documents for Inspection" AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorised share capital, issued, subscribed and paid up share capital of the Company as on the date of the Prospectus is as follows: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 400 lakhs divided into 40,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 255 lakhs divided into 25,50,000 Equity Shares of ₹10/- each. Proposed

Post issue capital: ₹ 349.40 Lakhs divided into 34,94,000 Equity Shares of ₹10 each. For details of the

Capital Structure, see the section "Capital Structure" on the page 41 of the Prospectus. NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Equity shares of face value of ₹10/- each were allotted to Moulana Taufeek Islam 600 equity shares and Ayisha Beevi 400 equity shares

LIABILITY OF MEMBERS: Liability of members of Company is Limited. RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the first issue of the issuer, there has been no formal market for the securities of the issuer. The face value of the equity shares is ₹10/- each and the issue price is 5.1 times of face value of the equity share. The issue price should not be taken to be Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"). No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the equity shares of our company or regarding the price at which the equity shares will be traded after listing. GENERAL RISKS: Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and

indicative of the market price of the equity shares after the equity shares are listed on the EMERGE

investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of 'Risk factors' beginning on page no.17 of the Prospectus.

BASIS FOR ISSUE PRICE: Please refer "Basis for Issue Price" beginning on page 55 of the

ISSUER'S ABSOLUTE RESPONSIBILITY: The issuer, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this offer document contains all information with regard to the issuer and the issue which is material in the context of the issue, that the information contained in the offer document is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading in any material respect.

on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"). In terms of the Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations, as amended from time to time, our company has received "in-principal" approval letter dated December 24, 2021 from NSE for using its name in this offer document for listing of our shares on the NSE EMERGE. For the purposes of the issue, the Designated Stock Exchange will be National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulation 2018, A copy of the Prospectus has been filed with SEBI after filing of the Offer

LISTING: The Equity Shares of our company issued through the Prospectus are proposed to be listed

document with Registrar of Companies in term of Regulation 246 of the SEBI (ICDR) Regulations 2018 and Sec 26(4) of Companies Act 2013. However, SEBI shall not issue any observation on the Offer document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 151 of the Prospectus. DISCLAIMER CLAUSE OF THE EXCHANGE (NSE): "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

FINSHORE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Anandlok, Block-A. 2nd Floor, Room No. 207.

Investor Grievance Email: info@finshoregroup.com

Contact Person: Mr. S. Ramakrishna Iyengar

227 A.J.C Bose Road,

Place: Chennai

Kolkata-700020, West Bengal

Email: ramakrishna@finshoregroup.com

SEBI Registration No: INM000012185

CIN No: U74900WB2011PLC169377

Website: www.finshoregroup.com

Telephone: 033 – 22895101

FINSHORE

REGISTRAR TO THE ISSUE COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Ms. S Anupriyankha TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED Rajah Annamalai Buildings, Annex 3rd Floor, 18/3, Rukmani Lakshmipathy Road, (Marshalls Road), Egmore, Chennai - 600 **CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED** 008. India. "Subramanian Building", #1, Club House Road, **Tel No.:** 044 – 4356 6000 Chennai - 600 002, India E-Mail ID: cs@timescan.in **Tel:** +91-44-40020700, 28460390

text of the 'Disclaimer Clause of NSE" on page 155 of the Prospectus.

Website: www.timescan.in

Manager, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as nonreceipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or refund orders, etc.

Investors may contact our Company Secretary and Compliance

Officer and / or the Registrar to the Issue and / or the Lead

Availability of Prospectus: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of the Stock Exchange at www.nseindia.com, the website of Lead Manager at www.finshoregroup.com and website of Issuer Company at www.timescan.in

Email/ Investor Grievance E-mail: investor@cameoindia.com

Contact Person: Mr. R.D. Ramasamy, Director

SEBI Registration No: INR000003753

CIN No: U67120TN1998PLC041613

Website: www.cameoindia.com

Finshore Management Services Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange (www.nseindia.com) and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of Applications Supported by Blocked Amount (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed by all the investors. The investors

Availability of Application form: Application forms can be obtained from the Registered Office of TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED and the Lead Manager to the Issue -

are required to fill the application from and submit the same to the relevant SCSB's at the specific locations or registered brokers at the broker centres or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of NSE. ASBA application forms can be obtained from the Designated Branches of SCSB's, the list of banks that are available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.nseindia. com. For more details on ASBA process, please refer to the details given in application forms and Prospectus and also please refer to the Section "Issue Procedure" beginning on page 166 of the Prospectus.

UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI): Investors are advised to carefully refer SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/P/CIR/2021/570 dated June 2, 2021 for details relating to use of Unified Payments Interface (UPI) as a payment mechanism with Application Supported by Block Amount (ASBA) for applications in public issues by retail individual investors. BANKER TO THE ISSUE\SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors beginning on page 17 of the Prospectus before making any investment decision. For TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Managing Director

CHENNAI/KOCHI

Date: 28-12-2021 TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, a public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www. finshoregroup.com, website of the NSE at www.nseindia.com and website of Issuer Company at www.timescan.in. Investor Should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" as appearing in the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and will not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933.

financialexp.ep r.in

कोरोना: 'पैक्सलोविड' दवा के आपात इस्तेमाल को मंजूरी

सियोल, 27 दिसंबर (एपी)।

दक्षिण कोरिया ने सोमवार को बताया कि उसने फाइजर द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए तैयार गोली 'पैक्सलोविड' के आपात इस्तेमाल को मंजरी दे दी है।

खाद्य एवं औषधि सुरक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि उसे उम्मीद है कि पैक्सलोविड को मंजुरी देने से कोविड-19 के इलाज में विविधता आएगी और मरीजों के गंभीर स्थिति में पहुंचने से बचाया जा सकेगा। सरकार ने इस दवा को देश में कोविड-19 के बढते मामलों के बीच दी है।

कोरिया की रोग नियंत्रण एवं बचाव एजंसी ने बताया कि सरकार ने 3,62,000 मरीजों के लिए पैक्सलोविड गोली खरीदने के लिए करार पर दस्तखत किए गए हैं। इन पैक्सलोविड गोली की आपर्ति अगले साल मध्य जनवरी में होगी।

एजंसी ने कहा कि दक्षिण कोरिया ने कोविड-19 के इलाज के लिए मर्क द्वारा विकसित गोली 'मोलनिपराविर' खरीदने के लिए भी करार किया है और कंपनी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली दवा से 2,42,000 लोगों का इलाज किया जा सकता है।

कोविड नियमों के कारण लौट आई डेल्टा एअरलाइंस की उड़ान

बेजिंग, 27 दिसंबर (एपी)।

डेल्टा एयरलाइंस ने सोमवार को कहा कि हाल ही में सिएटल से रवाना हुई एक उड़ान को उतरे बिना ही लौटा दिए जाने की वजह शंघाई हवाई अड्डे पर कोविड महामारी को लेकर स्वच्छता संबंधी नई जरूरत थी। विमान को लौटा दिए जाने पर सैन फ्रांसिस्को में चीनी वाणिज्य दूतावास ने विरोध जताया था।

ई-मेल के जरिए जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि शंघाई पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई व्यवस्था के तहत विमान के उतरने के समय में वृद्धि आवश्यक है तथा डेल्टा के लिए यह संचालन दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। वैसे यह स्पष्ट नहीं है कि क्या नियम हैं और किस वजह से बदलाव किए गए हैं लेकिन यह ऐसे वक्त किया गया है जब चीन ने पहले से ही सख्त कोविड-19 यात्रा पाबंदियां और कड़ी कर दी हैं। यह कदम शियान शहर में महामारी के प्रसार एवं बेजिंग में शीतकालीन ओलंपिक से छह सप्ताह पहले उठाया गया है।

बेजिंग के दक्षिणपूर्व में करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शियान में सप्ताहांत में कोरोना विषाण के संक्रमण के 300 से अधिक नए मामले सामने आए जो पिछले दिनों की तुलना में बहत अधिक हैं। यह 1.3 करोड़ लोगों का शहर है जहां हर दो दिन में प्रति परिवार एक व्यक्ति को जरूरी वस्तुओं की खरीददारी के लिए घर से बाहर जाने की इजाजत है।

चीनी मीडिया की खबरों के अनुसार, पिछले सप्ताह डेल्टा एयरलाइन की उड़ान के सिएटल लौट जाने के बाद यात्रियों के पास कोविड-19 की जांच के नतीजों की एवं अमेरिकी वीजा की अवधि खत्म हो गई।

सैन फ्रांसिस्को में चीनी वाणिज्य दुतावास ने डेल्टा का नाम तो नहीं लिया लेकिन रविवार को एक संक्षिप्त बयान में कहा कि हाल के दिनों में अमेरिका से चीन के लिए कई उड़ानें या तो विलंब से आई या रद्द कर दी गईं जिनमें वह उड़ान भी है जो गंतव्य के मार्ग में आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद लौट आई।

TIMESCAN

महत्वपूर्ण सूचना

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु रेलवे द्वारा यात्री वहन क्षमता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के डिब्बों में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :--

रेल डिब्बों की संख्या में वृद्धि				
रेलगाड़ी सं. एवं नाम	मौजूदा यात्री डिब्बे	बढ़े हुए डिब्बे	संशोधित यात्री डिब्बे	प्रभावी तिथि (प्रारंभिक स्टेशन से)
19019 / 19020 बान्द्रा टर्मिनस – हरिद्वार –	शयनयान—10, द्वितीय क्षेणी —4 2 टियर वाता.—2, 3 टियर वाता.—2,	प्रथम वाता1+	शयनयान—10, द्वितीय क्षेणी —4, 2 टियर वाता.—2, 3 टियर वाता.—3,	बान्द्रा टर्मिनस से तत्काल प्रभाव से
बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस	द्वितीय श्रेणी दिव्यांग अनुकूल–2, पार्सल यान–1= 21 डिब्बे	3 टियर वाता.–1 = 2 डिब्बे	प्रथम वाता.—1, द्वितीय श्रेणी दिव्यांग अनुकूल—2, पार्सल यान—1 = 23 डिब्बे	हरिद्वार से तत्काल प्रभाव से
19053 / 19054 सूरत — मुजफ्फरपुर — सूरत एक्सप्रेस	शयनयान–10, द्वितीय क्षेणी –4 2 टियर वाता.–1, 3 टियर	शयनयान–1 3 टियर वाता.	टेयर वाता. 2 टियर वाता1, 3 टियर	सूरत से 31.12.2021 से
	वाता.—3, द्वितीय श्रेणी दिव्यांग अनुकूल—2 = 20 डिब्बे	−2 = 3 डिब्बे		मुजफ्फरपुर से 02.01.2022 से
22969 / 22970 ओखा — वाराणसी — ओखा एक्सप्रेस	शयनयान—10, द्वितीय क्षेणी —4 2 टियर वाता.—1, 3 टियर वाता.—5, द्वितीय श्रेणी दिव्यांग अनुकूल—2 = 22 डिब्बे	रसोईयान – 1	शयनयान—10, द्वितीय क्षेणी —4 2 टियर वाता.—1, 3 टियर वाता.—5, रसोईयान—1, द्वितीय श्रेणी दिव्यांग अनुकूल—2 = 23 डिब्बे	ओखा से 30.12.2021 से
				वाराणसी से 01.01.2022 से

लयात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलगाड़ियों के मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों एवं उनकी विस्तृत समय-सारणी की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES ऐप देखें

रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन आदि सहित कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी नियमों और अन्य सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।

रेलमदद वेबसाइट :--हेल्पलाइन नं. www.railmadad.indianrailways.gov.in देखें एवं रेलमदद ऐप डाउनलोड करें।

फॉलो करें

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

अमृत महोत्सव

ईरान ने वियना परमाणु वार्ता से पहले कहा

कच्चे तेल के आयात की अनुमति दी जाए

तेहरान, 27 दिसंबर (एपी)

परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए वियना में शुरू होने वाली वार्ता से पहले ईरान ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और उसके सहयोगी तेहरान को उसके कच्चे तेल का निर्यात करने की अनुमति देने का वादा करें।

ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की यह टिप्पणी संकेत देती है कि ईरान 2015 परमाण् समझौते को बहाल करने संबंधी वार्ता से पहले अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की नई मांगों को लेकर तनाव के बीच एक दौर के बाद लगभग एक सप्ताह पहले वार्ता स्थगित कर दी गई थी।

अमीर अब्दुल्लाहियान ने यहां सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि ईरान चाहता है कि आगामी दौर की वार्ता में इस बिंदु पर पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया जाए कि ईरानी तेल आसानी से और बिना किसी रुकावट के बेचा जा सके और इसका धन ईरान के बैंक खातों में पहुंचे। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु समझौते के तहत पूर्ण आर्थिक रियायतों का आनंद लेने में सक्षम होना चाहता है। उन्होंने कहा, (प्रबंध हटाए जाने की) गारंटी और पृष्टि उन मामलों में शामिल हैं, जिन पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस और ईरान के प्रतिनिधि सोमवार को फिर से वार्ता शुरू करेंगे। ईरान की नई मांगों को लेकर तनाव के बीच एक दौर के बाद लगभग एक सप्ताह पहले वार्ता स्थगित कर दी गई थी।

अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान चाहता है कि आगामी दौर की वार्ता में इस बिंदु पर पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया जाए कि ईरानी तेल आसानी से और बिना किसी रुकावट के बेचा जा सके और इसका धन ईरान के बैंक खातों में पहुंचे।

अमेरिका मौजुदा वार्ता में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा ले रहा है क्योंकि 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड टुंप ने समझौते से अमेरिका को हटा लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकेत दिया है कि वह समझौते से फिर से जडना चाहते हैं।

आर्थिक पाबंदी में ढील पाने के लिए ईरान को समझौते का पालन करना होगा। समझौते से अमेरिका के हटने और ईरान पर फिर से पाबंदी लगाने के बाद तेहरान ने यूरेनियम का संवर्द्धन और तेज कर दिया। ईरान ने हाल के दिनों में संयुक्त राष्ट्र की परमाण् निगरानी एजंसी के अधिकारियों को भी अपने परमाण संयंत्रों की निगरानी के लिए सीमित पहुंच दी। पिछले सप्ताह वियना में वार्ताकारों की स्थगित हुई वार्ता के बाद तीन यूरोपीय देशों के राजनियकों ने कहा था कि वार्ता अंत की ओर बढ रही है।

आस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में ओमीक्रान से मौत का पहला मामला

सू की के

खिलाफ दो

आरोपों पर

बैंकाक, 27

फैसला टाला

दिसंबर (एपी)।

सैन्य

ने सत्ता से

सू की के

खिलाफ दो

आरोपों पर

अपना फैसला

सू की पर

सोमवार को

टाल दिया।

आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन किए

बगैर वाकी-

टाकी रखने

और उनका

आयात

करने का

आरोप है।

शासित म्यांमा

में एक अदालत

बेदखल की गई

नेता आंग सान

सिडनी (आस्ट्रेलिया), 27 दिसंबर (एपी)। विषाणु के नए बहुरू पृष्टि हुई है और कोवि आस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स शहर में कोरोना मामले सामने आए।

नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है।

विषाणु के नए बहुरूप 'ओमीक्रान' से पहली मौत की पुष्टि हुई है और कोविड-19 के छह हजार से अधिक नए

ाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड TATA पता : सातवीं मंजिल, विडियोकॉन टॉवर, झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055.

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

(प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत) टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति

दिनांक 04.10.2021 से 60 दिन के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी। चुंकि ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अत: ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त

ऋणी(याँ) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड के ऋणी(याँ) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।

ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों /कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	अनुसार राशि	की दिनांक
7899180 (पुनर्गठित ऋण खाता क्रमांक TCFLA03860 00010952662)	1. अशोक जैन, मकान नंबर सी-7/298, केशव पुरम, लॉरेंस रोड, दिल्ली - 110034. अन्य पता: मकान नंबर 106/12, खसरा संख्या 106/12 (1-00), ग्राम मुंडका, स्वर्ण पार्क, दिल्ली - 110041, 2. अंजू जैन, मकान नंबर सी-7/298, केशव पुरम, लॉरेंस रोड, दिल्ली - 110034. अन्य पता: 11869/9, सैट नगर, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005 अन्य पता: मकान नंबर 106/12, खसरा संख्या 106/12 (1-00), ग्राम मुंडका, स्वर्ण पार्क, दिल्ली - 110041, एवं 3. मेसर्स अशोका इंडस्ट्री, इनके प्रोप्रायटर के द्वारा, सी-7/298, केशव पुरम, लॉरेंस रोड, दिल्ली - 110034.	रू. 63,12,434/- दिनांक 04.10.2021 तक	(रचनात्मक

सुरक्षित आस्तियों /अचल संपत्तियों का विवरण : ग्राम मुंडका, स्वर्ण पार्क के नाम से विदित कॉलोनी, दिल्ली-110041 में स्थित खसरा नं. 106/12 (1-00) में कुल एरिया माप 1 बीघा में भूमि माप 425 वर्गयार्ड्स का प्लॉट नं. 106 / 12 जिसका नया नं. 106 / 12सी जिसका विस्तृत विवरण अंजू जैन के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 13.04.2004 में विशेष रूप से वर्णित है। चर्तुसीमा: पूर्व - प्लाट का हिस्सा, पश्चिम - अन्य की संपत्ति, उत्तर

रोड़, दक्षिण: अन्य की संपत्ति. हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 28,12,2021 कृते टाटा केपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड स्थान : न्यू दिल्ली

महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा निम्नलिखित एक्सप्रेस रेलगाडियों की समय—सारणी में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:--

रेलगाड़ी संख्या एवं नाम	परिवर्तन की तिथि
12926 अमृतसर जं. — बान्द्रा टर्मिनस पश्चिम एक्सप्रेस	तत्काल प्रभाव से
19020 हरिद्वार जं. — बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस	तत्काल प्रभाव से
22654 ह. निज़ामुद्दीन–तिरुवनंतपुरम सेंट्रल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस	तत्काल प्रभाव से
12474 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा — गांधीधाम बीजी सर्वोदय एक्सप्रेस	30.12.2021 से
12476 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा — हापा सर्वोदय एक्सप्रेस	तत्काल प्रभाव से
12478 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा — जामनगर एक्सप्रेस	तत्काल प्रभाव से
04383 प्रयागराज संगम — जौनपुर जं. अनारक्षित मेल ∕ एक्सप्रेस स्पेशल	01.01.2022 से

अतएव रेलयात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलगाड़ियों के मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों एवं उनकी विस्तृत समय-सारणी की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES App देखें।

रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।

रेलमदद वेबसाइट देखें:www.railmadad.indianrailways.gov.in रेलमदद ऐप डाउनलोड करें, रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139

📇 📢 पर हमें फॉलो करें



(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Timescan Logistics Private Limited" on October 19, 2006 vide certificate of incorporation bearing Corporate Identity No. U60232TN2006PTC061351 under the provisions of Companies Act, 1956 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai. Subsequently, name of the company changed to "Timescan Logistics (India) Private Limited" vide fresh certificate of incorporation dated May 28, 2012. Subsequently, the company was converted into Public Limited Company vide a fresh certificate of incorporation issued by ROC-Chennai, consequent upon conversion from Private Limited to Public Company dated July 02, 2021 in the name of "Timescan Logistics (India) Limited". The Corporate Identification Number of our Company changed to U60232TN2006PLC061351. For further details, please refer to section titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 93 of the Prospectus.

Contact Person: Ms. S Anupriyankha, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No.: 044 – 4356 6000 E-Mail ID: cs@timescan.in; Website: www.timescan.in; CIN: U60232TN2006PLC061351

Registered office: Rajah Annamalai Buildings, Annex 3rd Floor, 18/3, Rukmani Lakshmipathy Road, (Marshalls Road), Egmore, Chennai - 600 008. India

OUR PROMOTERS: (I) Mr. MOULANA TAUFEEK ISLAM, AND (II) Mrs. AYISHA BEEVI

INITIAL PUBLIC OFEFR OF 9,44,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹51/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹41/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹481.44 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹51/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹24.48 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 8,96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹51/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹456.96 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.02% AND 25.64% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

All the investors applying in a public issue shall use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making payment providing details about the bank account

which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") as per the SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated November 10, 2015. As an alternate payment mechanism, Unified Payments Interface (UPI) has been introduced (vide SEBI Circular Ref: SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 as a payment mechanism in a phased manner with ASBA for applications in public issues by retail individual investors. For further details, please refer to section titled "Issue Procedure" beginning on page 166 of the Prospectus. In case of delay, if any in refund, our Company shall pay interest on the application money at the rate of 15 % per annum for the period of delay.

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. (For further details please see "The Issue" beginning on page no. 30 of the Prospectus.) A copy will be delivered for filing to the Registrar of Companies as required under sub-section 4 of Section 26 of the Companies Act, 2013.

For further details please refer the section titled 'Issue Procedure' beginning on page 166 of the Prospectus

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 51/- PER EQUITY SHARE THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/-EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 2,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2,000 EQUITY SHARES THEREAFTER FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO "SECTION XI - ISSUE INFORMATION" BEGINNING ON PAGE 159 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON: December 31, 2021 **ISSUE CLOSES ON: January 04, 2022**

Mandatory in public issue. No cheque will be accepted

now available in ASBA for retail individual investors.

*ASBA is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details check section on ASBA below."

'ASBA has to be availed by all the Investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and General Information Documents and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 166

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF THE COMPANY AS REGARDS TO ITS OBJECTS: For information on the main objects of the Company, please see "Our History And Certain Other Corporate Matters" on page 93 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, please see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 195 of the Prospectus.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorised share capital, issued, subscribed and paid up share capital of the Company as on the date of the Prospectus is as follows: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 400 lakhs divided into 40,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 255 lakhs divided into 25,50,000 Equity Shares of ₹10/- each. Proposed Post issue capital: ₹ 349.40 Lakhs divided into 34,94,000 Equity Shares of ₹10 each. For details of the Capital Structure, see the section "Capital Structure" on the page 41 of the Prospectus NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Equity shares of face value of ₹10/- each were allotted to Moulana Taufeek Islam 600 equity shares and Ayisha Beevi

LIABILITY OF MEMBERS: Liability of members of Company is Limited RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the first issue of the issuer, there has been no formal market for the securities of the issuer. The face value of the equity shares is ₹10/- each and the issue price is 5.1 times of face value of the equity share. The issue price should not be taken to be

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

Place: Chennai

Date: 28-12-2021

indicative of the market price of the equity shares after the equity shares are listed on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"). No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the equity shares of our company or regarding the price at which the equity shares will be traded after listing.

GENERAL RISKS: Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of

'Risk factors' beginning on page no.17 of the Prospectus. BASIS FOR ISSUE PRICE: Please refer "Basis for Issue Price" beginning on page 55 of the

ISSUER'S ABSOLUTE RESPONSIBILITY: The issuer, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this offer document contains all information with regard to the issuer and the issue which is material in the context of the issue, that the information contained in the offer document is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any

such opinions or intentions misleading in any material respect. LISTING: The Equity Shares of our company issued through the Prospectus are proposed to be listed on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"). In terms of the Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations, as amended from time to time, our company has received "in-principal" approval letter dated December 24, 2021 from NSE for using its name in

this offer document for listing of our shares on the NSE EMERGE. For the purposes of the issue, the Designated Stock Exchange will be National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulation 2018, A copy of the Prospectus has been filed with SEBI after filing of the Offer document with Registrar of Companies in term of Regulation 246 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and Sec 26(4) of Companies Act 2013. However, SEBI shall not issue any observation on the

Offer document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 151 of the Prospectus. DISCLAIMER CLAUSE OF THE EXCHANGE (NSE): "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

text of the 'Disclaimer Clause of NSE" on page 155 of the Prospectus.

FINSHORE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Anandlok, Block-A, 2nd Floor, Room No. 207, 227 A.J.C Bose Road, Kolkata-700020, West Bengal Telephone: 033 – 22895101 Email: ramakrishna@finshoregroup.com	Chennai - 600 002, India Tel: +91-44-40020700, 28460390 Email/ Investor Grievance E-mail: investor@cameoindia.com	Ms. S Anupriyankha TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED Rajah Annamalai Buildings, Annex 3rd Floor, 18/3, Rukmani Lakshmipathy Road, (Marshalls Road), Egmore, Chennai - 600 008. India. Tel No.: 044 – 4356 6000 E-Mail ID: cs@timescan.in Website: www.timescan.in Investors may contact our Company Secretary and Compliance	
Website: www.finshoregroup.com Investor Grievance Email: info@finshoregroup.com Contact Person: Mr. S. Ramakrishna Iyengar SEBI Registration No: INM000012185 CIN No: U74900WB2011PLC169377	Website: www.cameoindia.com Contact Person: Mr. R.D. Ramasamy, Director SEBI Registration No: INR000003753 CIN No: U67120TN1998PLC041613	Officer and / or the Registrar to the Issue and / or the Lead Manager, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as nonreceipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or refund orders, etc.	l

REGISTRAR TO THE ISSUE

refund orders, etc Availability of Prospectus: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of the Stock Exchange at www.nseindia.com, the website of Lead Manager at www.finshoregroup.com and website of Issuer Company at www.timescan.in

Availability of Application form: Application forms can be obtained from the Registered Office of TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED and the Lead Manager to the Issue -Finshore Management Services Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange (www.nseindia.com) and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed by all the investors. The investors are required to fill the application from and submit the same to the relevant SCSB's at the specific locations or registered brokers at the broker centres or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of NSE. ASBA application forms can be obtained from the Designated Branches of SCSB's, the list of banks that are available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.nseindia.

page 166 of the Prospectus. UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI): Investors are advised to carefully refer SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/P/CIR/2021/570 dated June 2, 2021 for details relating to use of Unified Payments Interface (UPI) as a payment mechanism with Application Supported by Block Amount (ASBA) for applications in public issues by retail individual investors.

com. For more details on ASBA process, please refer to the details given in application forms and Prospectus and also please refer to the Section "Issue Procedure" beginning on

BANKER TO THE ISSUE\SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors beginning on page 17 of the Prospectus before making any investment decision. For TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED

On behalf of the Board of Directors Managing Director

TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, a public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www. finshoregroup.com, website of the NSE at www.nseindia.com and website of Issuer Company at www.timescan.in. Investor Should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" as appearing in the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and will not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933.

www.readwhere.com





கடலூர் துறைமுகத்தில் ஐபி விசைப்படகு உரிமையாளர்கள் சங்கம் மற்றும் தொழிலாளர்கள் சார்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

கடலூர். டிசம்பர். 28. கடலூர் துறைமுகத்தில் விசைப்படகு உரிமையாளர் சங்கம் மற்றும் தொழிலாளர் சார்பாக கடலூர் துறைமுகம் மீன்வளத் துறை அலுவலகம் எதிரில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு தலைவர் சந்திரன் தாங்கினார். செயலாளர் தலைமை பிரபாகரன் முன்னிலை வகித்தார்.

மூர்த்தி பொருளாளர் ജേ. வரவேற்புரையாற்றினார். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஐபி விசைப்படகு இழுவை வலையினால் யாருக்கும் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை. எனவே ஐபி விசைப்படகு கடலூரில் அனுமதிக்க பயன்படுத்த வேண்டும்.

அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் மானிய விலை டீசலை தங்கு தடையின்றி வழங்க வேண்டும். கரை மடி இறால் வலை தொழில் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும். கடந்த ஐந்து மாத காலமாக எங்களை தொழில் செய்ய விடவில்லை. அதனால் அரசாங்கம் எங்களின் கோரிக்கையை ஏற்றுவிரைவில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இறுதியில் துணைத்தலைவர் தமிழ்வாணன் நன்றி கூறினார். இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஐபி விசைப்படகு உரிமையாளர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.



வெற்றிகரமாக நடந்த ஆர்ட்டிஸ்டிக் & டம்ப்ளிங் ஜிம்னாஸ்டிக் போட்டிகள்

தமிழ்நாடு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் கப்பட்ட தமிழ்நாடு ஜிம்னா சங்கத்துடன் மாவட்ட அளவில் டிச.27, போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. 2021 திங்கட்கிழமை அன்று இந்நிகழ்வில் TNGA தலைவர் வேளச்சேரியில் உள்ள SDAT அக்வாடிக் சென்டரில் உள்ள ஜிம்னாஸ்டிக் ஹாலில் ஆர்ட்டிஸ்டிக் மற்றும் டம்ப்ளிங் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் போட்டிகள் நடந்தது. இந்தப் போட்டியில் சென்னை, காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள் ளூரில் இருந்து ஜிம்னாஸ்டிக் வீரர்கள் கலந்துகொண்டனர். அதுவும், 6 வயதுக்குட்பட் டோர் முதல் சீனியர் வரை பலர் பல்வேறு போட்டிகளில் பெற்றனர். இந்த ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் டம்ப்ளிங் ஆனது சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஜிம் னாஸ்டிக்ஸ் வகையாகும். சில ஆண்டுகளாக தடைபட்டு இருந்த போட்டிகள், அதி

மேன்மைமிகு முதன்மை சார்பு நீதிமன்றம் கடலூர் MCOP:1946/2019

காசிநாதன் த/பெ.ஆறுமுகம் மாரியம்மன் கோவில் தெரு, கொஞ்சிக்குப்பம், பண்ருட்டி வட்டம், கடலூர் மாவட்டம்.

–எதிர்– A.ராஜா த/பெ.ஆறுமுகம் நெ.73 **மாரியம்மன்** கோவில் திருவாமாத்தூர், சோழனூர் அஞ்சல் விழுப்புரம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம்.

–எதிர்மனுதார மனுதாரர் வழக்கறிஞர் 1–ம் எதிர்மனுதாரருக்கு தெரிவிக்கும் அறிவிப்பு

கடந்த 31.08.2019 தேதியன்று மனுதாரர் சென்னை to கும்பகோணம் தெற்கிலிருந்து மெயின்ரோட்டில் நோக்கி காடாம்புலியூர் வடக்கு கார்டன் எதிரில் TN-வினிக் 31BD–4015 என்று எண்ணுள்ள Honda Shine என்ற இரு சக்கர வாகனத்தில் பின்னால் உட்கார்ந்த கொண்டு சென்ற போது எதிர் திசையில் இருந்து வந்த தங்களுக்கு சொந்தமான TN–32–L–7214 என்ற எண்ணுள்ள Tractor மற்றும் TN-31–2702, TN–32–2508 என்ற எண்ணுள்ள இரண்டு Trailers ஓட்டி வந்தவர் மேற்படி இருச்சக்கர வாக்னத்தில் மோதியதால் சாலை விபத்தில் அடிப்பட்டு பலத்த எலும்பு முறிவு காயங்கள் ஏற்பட்டமைக்காக சமூகம் கோர்ட்டில் ரூ.5,00,000/-கோரி நஷ்டயூடு மனுதாக்கள் செய்து மேற்படி மனுவில் தாங்கள் ஆஜராவதற்கு வாய்தா 04.02.2022 வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. தங்களுக்கு ஏதேனும் ஆட்சேபனை இருப்பின் சமூகம் நீதிமன்றத்தில் 10.00 மணியளவில் காங்கள் நேரிலோ வழக்கறிஞர் மூலமாகவோ ஆஜராகி தெரிவித்துக்கொள்ளவேண்<mark>டி</mark>யது தவறினால் தங்கள் பேரில் ஒருதலைப்பட்சமாக உத்திரவு பிறப்பிக்கப்படும் என்பதை இதன் மூலம் அறியவும்.

J.சுந்தரராஜன்,B.A.,B.L மனுதாரரின் வழக்கறிஞ

டிச: காரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக் இணைந்து ஸ்ட்டிக்ஸ் கழகத்தின் சார்பில் திரு. ரோக பரணி அவர்கள்,

மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம், மன்னார்குடி அசல் வழக்கு எண் : 72/2021 றன்னார்குடி தாலுக்கா உள்ளிக் கோட்டை மற்றும் கண்டிதம் பேட்டை <u>விவசாயிகளு</u>க்காக

. ராஜகோபாலன் 4. அருளானந்தம்

.... வாதிகள் – எதிர்– தமிழ்நாடு அரசுக்காக மாவட்ட **்**சியர், திருவாரூர் 2. வருவாய் கோட்டாட்சியர்,

மன்னார்குடி 3.வட்டாட்சியர், மன்னார்குடி ... பிரதிவாதிகள்

அறிவிப்பு மன்னார்குடி தாலுக்கா, கண்டிதம் பேட்டை கிராமத்தில் புல எண் :118/ A1 புல எண்: 118/A2 வண்டிப்பாதை உள்ளிக்கோட்டை சம்பந்தமாக மற்றும் கண்டிதம்பேட்டை கிராம விவசாயிகளுக்காக மோகன் மகேஷ், ராஜகோபாலன், வகையறா Representative Capac-வால் ity வழக்கு தொடரப்பட்டு உள்ளது மேற்பட் நீதிமன்றத்தில் 07.01.2021 கேதி போடப்பட்டுள்ளதால் யாருக் கேனும் ஆட்சேபனை இருப்பின் மேற்படி நீதிமன்றத்தில் காலை 10 மணிக்கு ஆஜராகி தெரிவித்துக் கொள்ளலாம்

அ.ஜெய்சங்கர் எம்.ஏ., எல் எல் பி. வழக்கறிஞர் 17, அன்னவாசல் தெரு மன்னார்குடி

சார்பு நீதிமன்றம், திருவாரூர். இ.ம். எண். 113/2020 இன் UFOS /2020

கனரா வங்கி, பாவட்டக்குடி கிளை அதற்காக அதன் கிளை மேலாள மற்றும் பவர் ஏஜெண்ட் மூலமாக ...மனுதாரர்/வாதி

. தினேஷ், த/பெ. கலியபெருமாள், 2/90, தம்புவான் தெரு, **ு** நூர் நூர்கா பாவட்டக்குடி,

நன்னிலம் தாலுக்கா. ... எதிர்மனுதாரர்/பிரதிவாதி

அறிவிப்பு எதிர்மனுதாரர், மனுதாரர் வங்கியில் பெற்ற கடனை திரும்ப செலுத்தாத தால் எதிர்மனுதாரர் மீது மனுதாரரால் வழக்கு தாக்கல் செய்து சில திருத்தங்களுக்காக திருப்பப்பட்டு, திருத்தம் செய்து திரும்ப தாக்கல் செய்வகில் ஏற்பட்ட காலதாமதத்தை மன்னிக்க கோரி மனுதாரரால் மனு தாக்கல் செய்து, அது வருகிற 10.01.2022 அன்று வாய்கா போடப்பட்டுள்ளது. தாங்கள் மேற்படி தேதியில் காலை 10.30 மணியளவில் மேற்படி நீதிமன்றத்தில் நேரிலோ அல்லது வழக்கறிஞர் மூலமாகவோ ஆஜராகி கட்சி ஏதும் இருப்பின் தெரிவிக்க வேண்டியது. தவறும் பட்சத்தில் தோன்றா தரப்பினராக கருதப்படும் என்பதை அறியவும்.

டி.ஆர்.கே.சாந்தபாலன் எம்.ஏ., பி.எல். வழக்கறிஞர், நன்னிலம் SDAT RSM திருமதி. சுஜாதா மற்றும் ஸ்டேடியம் அதிகாரி ஆகியோர் பிரேம்குமார். விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு போட்டிகளைத் துவக்கி வைத்தனர்.

மேன்மைமிகு கடலூர் சிறப்பு சார்பு நீதிமன்றம் கோர்ட்டார். சமூகம், MCOP 282/2021 செல்வம் S/o.ராகவன்

எதிர்

குமாரசாமி த/பெ.நாராயணன் ந்,40, மெயின் ரோடு, கீழுர் புதுச்சேரி

1–எதிர்மனுதார மேற்படி வழக்கில் 1–ம் எதிர்மனுதாரர் அறிவதாவது 15.08.2020

பகளுக்கு சொந்தமான PY–05– VA–1562 என்ற பதிவெண்கொண்ட மோட்டார் சைக்கிள் ஏற்படுத்திய செல்வம் சாலைவிபத்தில் அடிபட்டு கொடுங்காயம் அடைந்ததற்கு கோரி ஈடு சமூகட் கோர்ட்டில் நடைபெற்று வரும் மேற்படி வழக்கின் வாய்தா சமூகம் கோர்ட்டில் வரும் 15.02.2022 வைக்கப்பட்டுள்ளது அன்று ே. மேற்படி வழக்கில் தாங்களுக்கு ஆட்சேபனை ஏதேனும் இருந் கால் அன்று காலை மணிக்கு சமூகம் கோர்ட்டில் நேரிலோ வமக்கறின் அல்லது மூலமாகவோ ஆஜராகி தெரிவிக்க தாப்பரில் ஒருதலைப்பட்சமாகத் தீர்மானிக்கப்படும் வேண்டியது. தவறினால் தாங்கள்

க**ண்டிப்பாக அறியவும்**. P.கிருஷ்ணமூர்த்தி,B.Sc.,B.L K.விஜயலட்சுமி,M.A.,B.L வழக்கறிஞர்கள் கடலூர்

மேன்மைமிகு கூடுதல் சார்பு (நெ.1) நீதிமன்றம் சமூகம் கடலூர் I.S.No.493/2018 in

MCOP NO.2317/2015 ıண்ருட்டி T.K, பேர்பெரியாங்குப்பம் அஞ்சல், வீரசிங்கன்குப்பம் நெ.123 வடக்கு தெரு, சின்னராசு குமாரரர்

எதிர் ண்ருட்டி TK., வல்லம் கிராமம் அன்பழக்ன் குமாரர் A.புருஷோத் தமன்

–எதிர்மனுதாரா மனுதாரர் வழக்கறிஞர் எதிர்மனுதாரருக்கு தெரிவிக்கும்

–மனுதார

அறிவிப்பு கடந்த 15.09.2017 தேதியில் மேற்படி தவறுதலுக்காச செய்யப்பட்டதை அசல் வழக்கு தொள்தேர் ரெஸ்டோர் செய்ய கோரி மனுத்தாக கல் செய்ததில் ஏற்பட்ட 333 நாட்கள் காலதாமதத்தை மன்னிக்க கோரி மேற்படி I.A.No.493/2018 என்ற " Sec |5 of Limitaion Act" படி மனுத்தாக்கல் செய்து மேற்படி மனுவின் பேரில் தாங்கள் ஆஜராவதற்கு 19.01.2022 . கேகியல் கேகியில் வாய்கா வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. தாங்கள் மேற்படி எனவே தினத்தன்று . சமூகம் கோர்ட்டில் காலை 10.00 மணியளவில் நேரிலோ அல்லது வழக்கறிஞர் மூலமாகவோ ஆஜராகி தங்கள் தரப்பில் ஆட்சேபணைடை ஏதாவது இருப்பின் தெரியப்படுத்த வேண்டியது. தவறினால் தங்கள் ஒருதலைபட்சமாச தீர்மானிக்கப்படும் என்பதை இத<mark>ன</mark>்

. மூலம் அறியவும். ஆர்.சுரேஷ்குமார்.,பி.ஏ.,எல்.எல்.பி. மனுதாரரின் வழக்கறிஞர்

ஹேபிடேட்ஸ் ட்ரஸ்ட் மானியங்களை நான்கு வன விரும்பி தன்னார்வலர்கள் பெறுகின்றனர்

சென்னை, 28, டிச: எச்.சி.எல்., டெக்னாலலிஸ் தலைவர் ரோஷினி நாடார் மல்கோத்ராவை நிறுவனராகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது ஹேபிடேட்ஸ் ட்ரஸ்ட். இந்த டர்ஸட் சார்பில் நிகழ் ஆண்டுக்கான (2021) மானியங்கள் பெறுவோரின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவின் பல்லுயிர்ப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் சூழலியல் தன்னார்வ நிறுவனங்களுக்கு மானியங்களை அளிக்கும் நிகழ்வு ஆண்டுதோறும் நிகழ்கிறது. சூழல் பாதுகாப்பை மேற்கொண்டு வரும் தன்னார்வலர்கள், தன்னார்வ நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து தங்களது பணியை ஆற்றும் வகையில் இந்த மானியத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில், கோவை மாவட்டம் வால்பாறையில் மனிதர்கள் – யானைகளுக்கு இடையிலான மோதலை தொழில்நுட்ப ரீதியின் வழியாகத் தடுக்க நேச்சர் வனப் பாதுகாப்பு அறக்கட்டளையானது திட்டத்தை வகுத்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்துக்காக ரூ.35 லட்சம் கூட்டாண்மை பங்களிப்பு மானியத் தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, ஹேபிடேட்ஸ் ட்ரஸ்ட்டின் நிறுவனர் மற்றும் அறங்காவலர் திருமிகு ரோஷினி நாடார் மல்கோத்ரா கூறியது:– பல்லுயிர்ப் பெருக்கம் மற்றும் பருவநிலை மாறுபாடு ஆகியன தொடர்பு இருக்கின்றது என்ற கருத்தை அண்மையில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் உலகத் ஒற்றுக்கொன்று கஸ்க்ளோவில் தலைவர்கள் அங்கீகரித்துள்ளனர். வனவிலங்குகள் கடத்தல், சுற்றுச்சூழல் தன்னார்வ நிறுவனங்களுக்கு போதுமான நிதியுதவிகள்

கிடைக்காமல் இருப்பது போன்ற சவாலான நிலைகளுக்கு இடையே சூழலியல் ஆர்வலர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். சூழலியல் அமைப்புகள், அரிய வகை உயிரினங்கள் ஆகியவற்றைக் காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் அமைப்புகள், தன்னார்வர்களின் பணிகளை போற்றும் வகையில் ஹேபிடேட்ஸ் ட்ரஸ்ட் அமைப்பு மானியங்களை அளித்து வருகிறது. அமைப்பானது தன்னார்வ அமைப்புகள் மற்றும் ஆர்வலர்களுக்கு மானியங்களை அளிப்பதுடன் மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறது என்றார்.

TIMESCAN

BEFORE THE HON.BLE PRINCIPAL DISTRICT JUDGE AT Thiruvallur

G.W.O.P.No.655 of 2021 MR.A.SRINIVASAN, S/o Arumugam

-VS-MRS.S.DAISY@AMMU

W/o Srinivasan ... Responder

TO: MRS.S.DAISY@AMMU W/o Srinivasan,

Residing at 3rd Avenue, Velmurugan's Krishna Apartments, Banu Nagar, Pudur. Ambattur. Chennai - 53.

In the above mentioned GWOF filed by the petitioner for custody of children's which came up for hearing on 08.11.2021 and the Hon'ble judge was posted the matter on 21.01.2022 for your appearance.

Please be present before the Hon'ble PRINCIPAL DISTRICT COURT AT THIRUVALLUR or 21.01.2022 at 10.30. A.M in persor or through your pleader, failing which the matter will be decided in your absence.

> M.VIDHYA SAGAR, MA.BI PETITIONER COUNSEL

வருவாய் உட்கோட்ட நடுவர் மற்றும் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அவர்கள், திருச்சிராப்பள்ளி

ந.க.எண்:அ4/4981/2021 திருமதி.S.செல்வராணி க/பெ.சக்திவேல் (லேட்) க.எண்.41/2, புதுத்தெரு, காஜாபேட்டை,

– மனுதாரர் – எதிர் –

அறிவிப்பு மனுவில் மனுவில் மேற்படி மனுதாரராகிய நான் எனது கணவர் சக்திவேல் என்பவர் கடந்த 10.12.2011– ம் தேதி மேற்படி முகவரியில் உள்ள வீட்டில் இறந்தார். மேற்படி அவரது இறப்பினை பதிவு செய்ய உத்தரவிட வேண்டி மனுதாக்கல் செய்துள்ளேன். அம்மனு மீதான விசாரணைக்காக மேற்படி உட்கோட்ட நடுவர் மற்றும் வருவாய் கோட்டாட்சியர் திருச்சி முன்பாக விசாரணை நடைபெறுகிறது. இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருப்பின் இந்த அறிவிப்ப வெளியிடப்பட்ட 15 தினங்களுக்குள் மேற்படி நடுவர் முன்பு ஆஜராகி

தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். திருமதி.S.செல்வராணி

ஆட்சேபனையை

வருவாய் உட்கோட்ட நடுவர் மற்றும் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அவர்கள் திருச்சிராப்பள்ளி ந.க.எண்:அ4/5112/2021 திருமதி.P. மல்லிகா க/பெ.பக்கிரிசாமி (லேட்) க.எண்: 13, 23 – வது கிராஸ் மேற்கு பாலாஜி நகர், காட்டூர்

திருச்சிராப்பள்ளி – 620 019. – எதிர் – எதிர்மனுதார இல்லை

அறிவிப்பு

மனுவில் மனுதாரராகி

மேர்படி

நான் எனது மகன் ப.மோகனசுந்தரப் என்பவர் 02.03.201 கடந்த ம் தேதி திருச்சி மாவட்டப் பொன்மலை, ரயில்வே புகிய டீசல் காலனி, கதவு எண்.915 C என்ற முகவரியில் உள்ள வீட்டில் இறந்தார் மேற்படி அவரது பதிவு செய்ய உத்தரவிட வேண் மனுதாக்கல் செய்துள்ளேன் அம்மனு மீதான விசாரணைக்காக வாய்தா மேற்படி வருவாட உட்கோட்ட நடுவர் மற்றும் வருவாய் கோட்டாட்சியர் திருச்சி முன்பாக விசாரணை நடைபெறுகிறது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபலை இந்த அறிவிப் வெளியிடப்பட்ட 15 தினங்களுக்கு மேற்படி நடுவர் முன்பு ஆஜராகி . தெரிவித்துக் கொள்ளலாம்.

திருமதி. P.மல்லிக மனுதார

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Timescan Logistics Private Limited" on October 19, 2006 vide certificate of incorporation bearing Corporate Identity No. U60232TN2006PTC061351 under the provisions of Companies Act, 1956 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai. Subsequently, name of the company changed to "Timescan Logistics (India) Private Limited" vide fresh certificate of incorporation dated May 28, 2012. Subsequently, the company was converted into Public Limited Company vide a fresh certificate of incorporation issued by ROC-Chennai, consequent upon conversion from Private Limited to Public Company dated July 02, 2021 in the name of "Timescan Logistics (India) Limited". The Corporate Identification Number of our Company changed to U60232TN2006PLC061351. For further details, please refer to section titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 93 of the Prospectus.

Contact Person: Ms. S Anupriyankha, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No.: 044 - 4356 6000 E-Mail ID: cs@timescan.in; Website: www.timescan.in; CIN: U60232TN2006PLC061351

Registered office: Rajah Annamalai Buildings, Annex 3rd Floor, 18/3, Rukmani Lakshmipathy Road, (Marshalls Road), Egmore, Chennai - 600 008. India.

OUR PROMOTERS: (I) Mr. MOULANA TAUFEEK ISLAM, AND (II) Mrs. AYISHA BEEVI INITIAL PUBLIC OFEFR OF 9,44,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹51/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹41/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE"), AGGREGATING TO ₹481.44 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹51/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹24.48 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 8,96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹51/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹456.96 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.02% AND 25.64% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

All the investors applying in a public issue shall use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making payment providing details about the bank account which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") as per the SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated November 10, 2015. As an alternate payment mechanism, Unified Payments Interface (UPI) has been introduced (vide SEBI Circular Ref: SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 as a payment mechanism in a phased manner with ASBA for applications in public issues by retail individual investors. For further details, please refer to section titled "Issue Procedure" beginning on page 166 of the Prospectus. In case of delay, if any in refund, our Company shall pay interest on the application money at the rate of 15 % per annum for the period of delay

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATIÓN IN THE NET ÓFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. (For further details please see "The Issue" beginning on page no. 30 of the Prospectus.) A copy will be delivered for filing to the Registrar of Companies as required under sub-section 4 of Section 26 of the Companies Act, 2013.

For further details please refer the section titled 'Issue Procedure' beginning on page 166 of the Prospectus

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 51/- PER EQUI

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/-EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 2,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

ISSUE PROGRAMME ISSUE OPENS ON: December 31, 2021 ISSUE CLOSES ON: January 04, 2022

Simple, Safe, Smart way of Application!!! Mandatory in public issue. No cheque will be accepted

now available in ASBA for retail individual investors.

*ASBA is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. "ASBA has to be availed by all the Investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors."

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and Genera Information Documents and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 166

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF THE COMPANY AS REGARDS TO ITS OBJECTS: For Matters" on page 93 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, please see "Material Contracts and Documents for Inspection"

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorised share capital, issued, subscribed and paid up share capital of the Company as on the date of the Prospectus is as follows: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 400 lakhs divided into 40,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 255 lakhs divided into 25,50,000 Equity Shares of ₹10/- each. Proposed Post issue capital: ₹ 349.40 Lakhs divided into 34,94,000 Equity Shares of ₹10 each. For details of the Capital Structure, see the section "Capital Structure" on the page 41 of the Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Equity shares of face value of ₹10/- each were allotted to Moulana Taufeek Islam 600 equity shares and Avisha Beevi LIABILITY OF MEMBERS: Liability of members of Company is Limited.

RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the first issue of the issuer, there has been no formal market for the securities of the issuer. The face value of the equity shares is ₹10/- each and the issue price is 5.1 times of face value of the equity share. The issue price should not be taken to be

indicative of the market price of the equity shares after the equity shares are listed on the EMERG Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"). No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the equity shares of our company or regarding the price at ich the equity shares will be traded after listing.

GENERAL RISKS: Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decisior in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of 'Risk factors' beginning on page no.17 of the Prospectus.

BASIS FOR ISSUE PRICE: Please refer "Basis for Issue Price" beginning on page 55 of the

ISSUER'S ABSOLUTE RESPONSIBILITY: The issuer, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this offer document contains all information with regard to the issue and the issue which is material in the context of the issue, that the information contained in the offer document is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any

such opinions or intentions misleading in any material respect. LISTING: The Equity Shares of our company issued through the Prospectus are proposed to be listed on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"). In terms of the Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations, as amended from time to time, our company has received "in-principal"approval letter dated December 24, 2021 from NSE for using its name in This offer document for listing of our shares on the NSE EMERGE. For the purposes of the issue, the Designated Stock Exchange will be National Stock Exchange of India Limited ("NSE").

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulation 2018, A copy of the Prospectus has been filed with SEBI after filing of the Offer document with Registrar of Companies in term of Regulation 246 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and Sec 26(4) of Companies Act 2013. However, SEBI shall not issue any observation on the Offer document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 151 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE EXCHANGE (NSE): "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the

contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE" on page 155 of the Prospectus. REGISTRAR TO THE ISSUE

TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

FINSHORE

Place: Chennai

FINSHORE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Anandlok, Block-A, 2nd Floor, Room No. 207, 227 A.J.C Bose Road. Kolkata-700020, West Bengal Telephone: 033 – 22895101

Email: ramakrishna@finshoregroup.com Website: www.finshoregroup.com Investor Grievance Email: info@finshoregroup.com Contact Person: Mr. S. Ramakrishna Iyengar SEBI Registration No: INM000012185

CIN No: U74900WB2011PLC169377

CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED "Subramanian Building", #1, Club House Road, Chennai - 600 002, India Tel: +91-44-40020700 28460390 Email/ Investor Grievance E-mail: investor@cameoindia.com

Website: www.cameoindia.com
Contact Person: Mr. R.D. Ramasamy, Director SEBI Registration No: INR000003753 CIN No: U67120TN1998PLC041613

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Ms. S Anupriyankha

Rajah Annamalai Buildings, Annex 3rd Floor, 18/3, Rukmani Lakshmipathy Road. (Marshalls Road), Egmore, Chennai - 600 **Tel No.:** 044 – 4356 6000

E-Mail ID: cs@timescan.in Investors may contact our Company Secretary and Compliance

Officer and / or the Registrar to the Issue and / or the Lead Manager, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as nonreceipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or refund orders, etc.

Availability of Prospectus: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of the Stock Exchange at www.nseindia.com, the website of Lead Manager at www.finshoregroup.com and website of Issuer Company at www.timescan.in Availability of Application form: Application forms can be obtained from the Registered Office of TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED and the Lead Manager to the Issue

Finshore Management Services Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange (www.nseindia.com) and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of Applications Supported by Blocked Amount (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed by all the investors. The investors

are required to fill the application from and submit the same to the relevant SCSB's at the specific locations or registered brokers at the broker centres or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of NSE. ASBA application forms can be obtained from the Designated Branches of SCSB's, the list of banks that are available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.nseindia. com. For more details on ASBA process, please refer to the details given in application forms and Prospectus and also please refer to the Section "Issue Procedure" beginning on

UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI): Investors are advised to carefully refer SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/P/CIR/2021/570 dated June 2, 2021 for details relating to use

of Unified Payments Interface (UPI) as a payment mechanism with Application Supported by Block Amount (ASBA) for applications in public issues by retail individual investors. BANKER TO THE ISSUE\SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors beginning on page 17 of the Prospectus before making any investment decision. For TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Managing Director

Date: 28-12-2021 TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, a public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www finshoregroup.com, website of the NSE at www.nseindia.com and website of Issuer Company at www.timescan.in. Investor Should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" as appearing in the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and will not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933.